



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1187) पटना, बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

13 अगस्त 2015

सं० 1524—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रौजा पछियारी मठिया, छपरा वार्ड न०-43, जिला-सारण पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 18 है।

इस न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय ज्ञापांक-253 दिनांक 06.06.14 द्वारा अंचलाधिकारी छपरा को अधिनियम की धारा-33 के तहत एक वर्ष के लिए अस्थाई न्यासधारी नियुक्त किया गया था। साथ ही उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह स्वच्छ छवि के हिन्दू सज्जनों का नाम भेजे।

अंचलाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा पत्रांक-665 दिनांक 23.06.2015 के माध्यम से न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ है। अस्थाई न्यासी के रूप में अंचलाधिकारी सदर, छपरा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए रौजा पछियारी मठिया, छपरा वार्ड न०-43, जिला-सारण की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “रौजा पछियारी मठिया, छपरा न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “रौजा पछियारी मठिया, छपरा न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचितता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| (1) अंचलाधिकारी, सदर, छपरा | — | अध्यक्ष |
| (2) श्री ज्ञानी कुमार शर्मा पे0 महेश शर्मा, मु0-रौजा, वार्ड न0-43,
पो0-छपरा, थाना-नगर, छपरा | — | सचिव |
| (3) श्री रंजीत उपाध्याय पे0 रंगनाथ उपाध्याय, मु0-रौजा,
वार्ड न0-43, पो0-छपरा, थाना-नगर, छपरा | — | कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री सच्चितानंद श्रीवास्तव पे0 मुकुन्द श्रीवास्तव, मु0-रौजा,
वार्ड न0-43, पो0-छपरा, थाना-नगर, छपरा | — | सदस्य |
| (5) श्री उमेश कुमार मिश्रा पे0 विश्वनाथ मिश्रा, मु0-रौजा,
वार्ड न0-43, पो0-छपरा, थाना-नगर, छपरा | — | सदस्य |
| (6) श्री रमेश कुमार सिंह पे0 सच्चितानंद सिंह, मु0-बड़ा तेलपा
नई बस्ती, पो0-छपरा, थाना-नगर | — | सदस्य |
| (7) श्री मनोज कुमार यादव पे0 रामबच्चन यादव, मु0-रौजा पोखरा
नई बस्ती, पो0-छपरा, थाना-नगर | — | सदस्य |
| (8) श्री रामबाबू मांझी पे0 छपित मांझी, मु0-रौजा पोखड़ा
नई बस्ती, पो0-छपरा, थाना-नगर | — | सदस्य |
| (9) श्री सागर महतो पे0 स्व0 पाचु महतो, मु0-रौजा पोखड़ा
नई बस्ती, पो0-छपरा, थाना-नगर | — | सदस्य |
| (10) श्री प्रमोद कुमार पे0 मुसाफिर प्रसाद यादव, मु0-पूर्वी रौजा,
पो0-छपरा, थाना-नगर | — | सदस्य |
| (11) श्री संतोष कुमार पे0 जगनारायण कुशवाहा, पूर्वी रौजा,
पो0-छपरा, थाना-नगर छपरा सारण | — | सदस्य |

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 16.08.15 से पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1187-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>